

सं. रा.भा. 11(5)/ प्रोत्सा. यो. 197-18/103/98

दिनांक :- 31/07/2018

पढ़ें :- 1. परिपत्र सं. 11 (5)/ प्रोत्साहन यो./1997-17/70/47, दिनांक: 19/07/2017

प रि प त्र / C I R C U L A R

विषय :- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

उपर्युक्त उद्देशिका में परिपत्र के अनुसरण में दमण स्थित संघ प्रदेश प्रशासन के कार्यालयों के लिए पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण एवं मसौदा लेखन का कार्य करते हुए 20,000 से अधिक शब्द लिखने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । उपर्युक्त परिपत्र में 01-07-2017 से 30/06/2018 के दौरान हिन्दी में लिखे गये शब्दों की संख्या का हिसाब रखने के लिए सूचना दी गई थी ।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज करते समय हिन्दी में 20,000 से अधिक शब्द लिखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु अग्रांकित पुरस्कारों के लिए विचार किया जायेगा :-

प्रथम पुरस्कार	-	(02 संख्यक) प्रत्येक रु. 5000/-
द्वितीय पुरस्कार	-	(03 संख्यक) प्रत्येक रु. 3000/-
तृतीय पुरस्कार	-	(05 संख्यक) प्रत्येक रु. 2000/-

उक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विजित प्रतिभागियों के चयन हेतु 01/07/2017 से 30/06/2018 के दौरान हिन्दी के टिप्पण/आलेखन में लिखे गये शब्दों को केंद्र में रखा जाएगा ।

अतः सभी संबंधित कार्यालय अध्यक्षों को सूचित करना है कि प्रशासन के सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त प्रोत्साहन योजना में भाग लें तथा दिनांक 01-07-2017 से 30/06/2018 के दौरान हिन्दी में लिखे गये शब्दों की संख्या का हिसाब निर्धारित प्रपत्र में भरकर राजभाषा विभाग को 31/08/2018 तक भिजवाएँ।


(डॉ. अनिल कौशिक)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दमण

संलग्नक : उपर्युक्त प्रपत्र ।

सेवा में

1. सभी संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष, दमण.

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण ।
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
3. वित्त सचिव की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
4. सचिव (राजभाषा) की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
5. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
6. उप-सचिव (राजभाषा), दमण ।
7. लेखा निदेशक, दमण.
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना-विज्ञान केंद्र, सचिवालय, दमण को इसे सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
9. कार्यालय प्रति ।

प्र प त्र / Proforma

हिन्दी में मूल रूप से लिखे गये टिप्पण / मसौदा लेखन प्रतियोगिता का समेकित वार्षिक विवरण/Consolidated Annual Statement on Noting / Drafting written Originally in Hindi .

कार्यालय का नाम /Name of Office : _____

प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले अधिकारी एवं

कर्मचारी का नाम एवं पदनाम / Name & Designation of

the Officer And Employees Participated in the competition :

क्रम सं. Sr.No.	महीना/Months	कुल शब्दों की संख्या/ Total Nos Words Originally Written in Hindi
1.	जुलाई, 2017	
2.	अगस्त, 2017	
3.	सितम्बर, 2017	
4.	अक्तूबर, 2017	
5.	नवम्बर, 2017	
6.	दिसम्बर, 2017	
7.	जनवरी, 2018	
8.	फरवरी, 2018	
9.	मार्च, 2018	
10.	अप्रैल, 2018	
11.	मई, 2018	
12.	जून, 2018	
	कुल /Total	

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

Sign of H.O.

फाइल सं. / No.

दिनांक / Dated.

सेवा में / To,

सहायक निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा विभाग, फोर्ट एरिया,

मोटी दमण - 396 220.